

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 12.11.2020

सराहनीय कार्य साइबर/सर्विलांस क्राइम सेल जनपद सिद्धार्थनगर

साइबर/सर्विलांस क्राइम सेल द्वारा पीड़ित के बैंक खाते से अज्ञात रूप से निकाले गये 1,50,000/- रुपये कराये वापस ।

जनपद सिद्धार्थनगर में साइबर क्राइम व अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर/सर्विलांस क्राइम सेल जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा पीड़ित के बैंक खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 1,50,000/- ₹0 को साइबर/सर्विलांस क्राइम सेल द्वारा कार्यवाही कर वापस कराया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक द्वारा दिनांक 01.09.2020 को लिखित तहरीर दी गयी कि उनके बैंक खाता से दिनांक 24-08- 2020 से 26-08-2020 तक अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिये कुल रुपये 1,50,000/- अज्ञात तरीकों से निकाल लिए गये । जिसके सम्बन्ध में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा साइबर एवं सर्विलांस सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था । साइबर सेल एवं सर्विलांस सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़ित के बैंक खाते में 1,50,000/- ₹0 शत-प्रतिशत धनराशि को वापस कराया गया । धनराशि को वापस पाकर पीड़ित प्रसन्न हैं, पीड़ित द्वारा सिद्धार्थनगर पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

नाम पता आवेदक/पीड़ित:- श्री रामकुमार जायसवाल पुत्र श्री राजाराम निवासी कस्बा व थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

धनराशि बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- 1- आरक्षी गुंजन कुमार सिंह, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- आरक्षी अतुल कुमार चौबे, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- आरक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी सर्विलांस सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 12.11.2020

आज दिनांक 12.11.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. राम अवधेश सिंह मय टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले दो व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में समय करीब 13:50 बजे गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया ।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 12.11.2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत की कार्यवाही में 25 शोहदे पकड़े गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा आज धनतेरस पर्व पर जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 25 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के दूसरे चरण में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 12.11.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 25 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावों तथा विद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाया गया । जिसके अंतर्गत जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 12.11.2020

आज दिनांक 12.11.2020 को श्री रामअभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान में श्री राहुल सिंह यादव प्रभारी निरीक्षक उसका बाजार के नेतृत्व में थाना उसका बाजार पुलिस द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी।

1. अवैध वाहन चेकिंग के दौरान 10 अवैध वाहनों से 10,000/- रुपये ई-चालान किया गया।
2. मु.अ.सं. 225/2020 धारा 60 आवकारी अधिनियम के तहत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब वरामद किया गया।
3. एन्टीरोमियो स्क्वायड चेकिंग के दौरान 05 व्यक्तियों द्वारा माफीनामा भरकर छोड़ा गया।

चेकिंग टीम का विवरण-

1. उ.नि. श्री सभाशंकर पाण्डेय थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ.नि. श्री नन्दू गौतम थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
3. का. अजय शर्मा थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
4. का. अमित मद्देशिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर
5. म. का. रुपा यादव थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 12.11.2020

माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के क्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के निर्देशन में व थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश दूबे के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.11.2020 को एन्टी रोमियो टीम थाना मोहाना द्वारा कार्यवाही के अन्तर्गत थाना क्षेत्र में स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि जगहों पर चेकिंग की गयी। दौराने चेकिंग आवश्यक हेल्पलाइन न० 1090,181,1076.1098,112,108 के बारे में जानकारी दी गयी। इस दौरान 34 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमें से 3 शोहदों को माफीनामा पर छोड़ा गया। भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया। थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों व स्कूल में बालिकाओं व महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत जागरूक किया गया। भारत नेपाल बार्डर पर SSB व कस्टम के अधि०/कर्म० गण मय फोर्स के साथ पैदल मार्च व चेकिंग की गयी तथा सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यातायात माह को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। तथा आवश्यक आदेशों के बारे में बताया गया। पैदल गश्त मोहाना, कस्बा बर्डपुर में की गयी। दौराने वाहन चेकिंग 05 वाहनो का 4500/- रुपये का ई चालान किया गया। व शान्ति व्यवस्था को कायम रखने हेतु 03 व्यक्ति को 151/107/116 द०प्र०सं० के चालान किया गया व चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय भेजा गया। त्योंहार धनतेरस, दीपावली व छठ पूजा के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में भ्रमण किया गया। तथा पटाखा फैक्ट्री की दुकान को चेक किया गया। आवश्यक आदेश निर्देश बताया गया। कही पर कोई अप्रिय बात सामने नहीं आयी।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 12.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक महोदय सि० नगर के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण, श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन, श्री महेश सिंह थानाध्यक्ष कपिलवस्तु के नेतृत्व में अपराध को रोकने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आज दिनांक 12/11/2020 को एक नफर अभियुक्त को धारा 151/107/116 CRPC में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 12.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में “अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान” के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 12.11.2020 को श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक शोहरतगढ़ के नेतृत्व में उ.नि. राम अवधेश सिंह मय टीम द्वारा शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में समय करीब 13.50 बजे गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 12.11.2020

गुमशुदा 12 वर्षीय बालक को कोतवाली बांसी पुलिस बल द्वारा बरामद कर परिजनों से मिलाया गया.परिजनो एवं ग्रामवासियो मे खुशी का माहौल..

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा गायब/लापता बच्चे एवं बच्चियों की बरामदी हेतु चलाये जा रहे अभियान आपरेशन मिलाप अभियान के अंतर्गत, श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में तथा श्री अरुण चंद, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी बांसी श्री शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में दिनांक 02.07.2020 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 192/2020 धारा 363 भा0द0वि0 से सम्बन्धित गुमशुदा 12 वर्षीय बालक को अथक परिश्रम से विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12.11.2020 को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री शैलेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. उ. नि. शेषनाथ यादव थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर ।
3. हे. का. शिव कुमार थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर ।
4. का. जीतेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर ।
5. का. करुणेश यादव थाना कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर ।

